



## प्रेसनोट थाना अछनेरा आगरा ।

**थाना अछनेरा पुलिस टीम द्वारा लूट का सफल अनावरण करते हुये मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से रु0 50,000/- सहित अन्य सामान बरामद....**

दिनांक 10.07.2021 को वादी संजू बघेल पुत्र शिव सिंह निवासी मण्डी फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ने थाना अछनेरा पर तहरीर दी कि मैं अपने घर से अंग्रेजी शराब की दुकान चौमा शाहरपुर तथा अंग्रेजी शराब की दुकान मण्डी मिर्जा खां एवं बीयर की दुकान भड़कौल तथा अंग्रेजी व बियर की दुकान जैगारा से रुपये इकट्ठा कर शराब की दुकान साधन स्थान पहुँचा। वहाँ से कैश लेकर अछनेरा की तरफ आ रहा था तभी अछनेरा मण्डी क्रासिंग से करीब 300 मीटर पहले साधन की तरफ से मेरे पीछे मोटर साइकिल से दो लडके आये और रुपयों से भरा बैग जिसमें रु0 2,22,000/- थे, छीन कर भाग गये। इस सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर मु0अ0सं0 187/2021 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया।

जनपद में लूट, छिनैती, अवैध असलाह आदि घटनाओं की रोकथाम व उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अछनेरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

### **पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-**

इसी क्रमानुसार दिनांक 16.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी, इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना क्षेत्र में दो लूटरे जो पहले भी लूट की कई घटनाओं को अन्जाम दे चुके हैं, आज अवैध असलाह के साथ रुकनता की तरफ आ रहे हैं और दक्षिणी बाईपास पर किसी बड़ी वारदात करने की फिराक में है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा कीठम अण्डर बाईपास पुल के नीचे चैकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया तो बदमाशों द्वारा भागने का प्रयास करते हुये पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्यवाही करते हुये बदमाश मोटर साइकिल छोड़ कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेर घोट कर कर एक बारगी दबिश देकर भागते हुये बदमाशों को समय 02.15 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये अभियुक्त अमित कुमार पुत्र मुन्ना लाल निवासी नगला बरी थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस की जामा तलाशी से उपरोक्त घटना में लूटे गये रुपये 2,22,000/- में से 50,400/-, 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस





315 बोर बरामद हुये तथा 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुयी । अभियुक्त अमित के साथ रैकी करता सह अभियुक्त हेमन्त उपरोक्त भी गिरफ्तार हुआ ।

## पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा अपना नाम 01. अमित कुमार 2. हेमन्त उर्फ राजू ने बताया कि शराब के ठेके के मैनेजर की रैकी हम दोनों तथा हमारे साथी करुआ उर्फ योगेश पुत्र महावीर निवासी बिसावर थाना सादाबाद जनपद आगरा ने की थी । अभि0 अमित ने बताया कि मैंने अपने साथी करुआ उर्फ योगेश व लाडला उर्फ हंसराज पुत्र संतोष कुमार निवासी सौंध थाना होडल जनपद पलवल हरियाणा के साथ मिलकर दिनांक 19.06.2021 को साधन रेलवे फाटक के पास उसी शराब के ठेके के मैनेजर को तमंचा दिखाकर मोटर साइकिल की टण्की पर रखे बैग को लूट लिया था । जिसमें रु0 2,22,000/- मिले थे । मेरे हिस्से में रु0 75,000 आये थे जिसमें से रु0 24,000/- खर्च हो गये ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अमित कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी नगला बरी थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस ।
2. हेमन्त उर्फ राजू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रदोई थाना बल्देव जनपद मथुरा ।

## बरामदगी का विवरण:-

1. रु0 50,400/-
2. 01 अदद अवैध तमंचा
3. 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस ।
4. 01 अदद मोटर साइकिल पेशन प्रो ।

## आपराधिक इतिहास:-

### ● अभियुक्त हेमन्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 227/2021 धारा 41,102सीआरपीसी व 307,411 आईपीसी थाना अछनेरा आगरा ।
2. मु0अ0सं0 229/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अछनेरा आगरा ।
3. मु0अ0सं0 313/2020 धारा 411,414 आईपीसी थाना सादाबाद जनपद हाथरस ।
4. मु0अ0सं0 169/2020 धारा 380 आईपीसी थाना उद्योगनगर जनपद भरतपुर राजस्थान ।
5. मु0अ0सं0 139/2020 धारा 379 आईपीसी थाना हाईवे जनपद मथुरा ।
6. मु0अ0सं0 42/20 धारा 498ए,323,506 आईपीसी, 3 / 4 डीपी एक्ट थाना वल्देव मथुरा ।
7. मु0अ0सं0 56/2019 धारा 498ए,323,506 आईपीसी, 3 / 4 डीपी एक्ट थाना सादाबाद हाथरस ।



8. मु0अ0सं0 265/2021 धारा 392,411 आईपीसी थाना एत्मादपुर आगरा ।
9. मु0अ0सं0 187/2021 धारा 394,120बी आईपीसी थाना अछनेरा आगरा

● अभियुक्त अमित उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 227/2021 धारा 41,102सीआरपीसी व 307,411 आईपीसी थाना अछनेरा आगरा ।
2. मु0अ0सं0 228/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अछनेरा आगरा ।
3. मु0अ0सं0 187/2021 धारा 394,411 आईपीसी थाना अछनेरा आगरा ।
4. मु0अ0सं0 618/2017 धारा 323,504,506 ICP व 3(1)X SC ST ACT थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. SHO श्री उदयवीर सिंह मलिक थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
2. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद आगरा ।
3. उ0नि0 श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी टीम आगरा
4. उ0नि0 श्री योगेश कुमार प्रभारी चौकी किरावली थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
5. उ0नि0 श्री मनोज कुमार नागर प्रभारी चौकी अरदाया थाना अछनेरा जनपद आगरा
6. का0 पवन पालीवाल, का0 सत्यम यादव, का0 सोनू कुमार, का0 हरीओम अवस्थी थाना अछनेरा जनपद आगरा
7. है0का0 रियाज खान, का0 विपिन कुमार, का0 लोकेश कुमार, का0 मुकुल शर्मा, का0 वसीम अकरम, का0 राकुल, का0 मानवेन्द्र उपाध्याय एसओजी टीम जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।